

Bachelor of Commerce (B.Com.) Semester—I (C.B.C.S.) Examination

PRINCIPLES AND PRACTICE OF INSURANCE (Life Insurance)–I

Optional Paper—8 (1 T 8)

(Vocational Group–II)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

N.B. :— (1) All questions are compulsory.

(2) All questions carry equal marks.

1. (a) Define Risk Management and explain its importance. 8
- (b) Describe the principles of Insurance Management. 8

OR

- (c) Mention the classification of Risk. 8
- (d) State the process of risk insurance management. 8
2. (a) Explain importance and scope of Insurance. 8
- (b) Describe the history of insurance in detail. 8

OR

- (c) What are the different types of reinsurance ? 8
- (d) Define reinsurance and explain its characteristics. 8
3. (a) Describe the process of regulation in Life Insurance. 8
- (b) Explain in brief management of Life Insurance. 8

OR

- (c) Explain the insurance contract in detail. 8
- (d) Describe classification of Life Insurance Policies. 8

4. (a) Explain the concept 'Proposal Form' and 'Policy Form'. 8
- (b) Narrate insurance documents in detail. 8
- OR**
- (c) State the process of claim settlement in Death of Policyholder. 8
- (d) State the procedure for settlement of claim at the time of maturity of policy. 8
5. Answer in brief :
- (a) Concept of risk. 4
- (b) Explain the term 'Double Cover' in the reinsurance. 4
- (c) What do you mean by Life Insurance ? 4
- (d) Write note on co-insurance and renewal receipt. 4

Bachelor of Commerce (B.Com.) Semester—I (C.B.C.S.) Examination

PRINCIPLES AND PRACTICE OF INSURANCE (Life Insurance)–I

Optional Paper—8 (1 T 8)

(Vocational Group–II)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

N.B. :— (1) All questions are compulsory.

(2) All questions carry equal marks.

(मराठी माध्यम)

1. (अ) जोखिम व्यवस्थापनाची व्याख्या करा आणि त्याचे महत्त्व स्पष्ट करा. 8

(ब) विमा व्यवस्थापनाच्या तत्वांचे वर्णन करा. 8

किंवा

(क) जोखिम चे वर्गीकरण नमूद करा. 8

(ड) जोखिम विमा व्यवस्थापनाची प्रक्रिया सांगा. 8

2. (अ) विम्याचे महत्त्व आणि व्याप्ती स्पष्ट करा. 8

(ब) विमा इतिहासाचे सविस्तर वर्णन करा. 8

किंवा

(क) पुनर्विम्याचे विविध प्रकार कोणते आहेत. 8

(ड) “पुनर्विमा” परिभाषित करा आणि त्याची वैशिष्ट्ये स्पष्ट करा. 8

3. (अ) जीवन विमा नियमानाच्या प्रक्रियेचे वर्णन करा. 8

(ब) जीवन विमा व्यवस्थापन थोडक्यात स्पष्ट करा. 8

किंवा

(क) विमा प्रसंविदा सविस्तर स्पष्ट करा. 8

(ड) जीवन विमा पत्राच्या वर्गीकरणाचे वर्णन करा. 8

4. (अ) 'प्रस्ताव प्रपत्र' आणि 'विमापत्र प्रपत्र' संकल्पना स्पष्ट करा. 8
(ब) विमा दस्तावेज सविस्तर विशद करा. 8
- किंवा
- (क) विमा धारकाच्या मृत्युनंतर दाव्यांच्या निवारणाची प्रक्रिया सांगा. 8
(ड) विमापत्राच्या मुदत पूर्तीनंतर दाव्यांचे निस्तारण करण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करा. 8
5. थोडक्यात उत्तरे लिहा :
- (अ) 'जोखिम' संकल्पना. 4
(ब) पुनर्विम्यात 'दूहेरी संरक्षण' (Double Cover) संज्ञा स्पष्ट करा. 4
(क) जीवन विम्यापासून आपणास काय अर्थबोध होतो ? 4
(ड) सह-विमा आणी नविनीकरण पावती वर टिपण लिहा. 4

Bachelor of Commerce (B.Com.) Semester—I (C.B.C.S.) Examination

PRINCIPLES AND PRACTICE OF INSURANCE (Life Insurance)—I

Optional Paper—8 (1 T 8)

(Vocational Group—II)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

N.B. :— (1) All questions are compulsory.

(2) All questions carry equal marks.

(हिन्दी माध्यम)

1. (अ) 'जोखिम प्रबन्धन' परिभाषित कीजिए। उसका महत्व स्पष्ट कीजिए। 8

(ब) बीमा प्रबंधन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 8

अथवा

(क) जोखिम का वर्गीकरण दर्शाइये। 8

(ड) जोखिम बीमा प्रबंधन की प्रक्रिया बतलाइये। 8

2. (अ) बीमा का महत्व एवं कार्यक्षेत्र स्पष्ट कीजिए। 8

(ब) बीमा इतिहास का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। 8

अथवा

(क) पुनर्बीमा के विभिन्न प्रकार कौन-से हैं ? 8

(ड) "पुनर्बीमा" परिभाषित कीजिए एवं उसकी विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। 8

3. (अ) जीवन बीमा नियमन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 8

(ब) जीवन बीमा प्रबंधन संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। 8

अथवा

(क) बीमा अनुबंध विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिए। 8

(ड) जीवन बीमा-पत्र वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। 8

4. (अ) 'प्रस्ताव प्रपत्र' एवं 'बीमापत्र प्रपत्र' अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 8
(ब) बीमा दस्तावेज सविस्तार स्पष्ट कीजिए। 8

अथवा

- (क) बीमा धारक के निधन पश्चात् दावों की समझौता प्रक्रिया बतलाइये। 8
(ड) अवधिपूर्ति के पश्चात् बीमा-पत्र दावों का निपटारा करने की विधि स्पष्ट कीजिए। 8
5. संक्षेप में उत्तर लिखिए :
- (अ) जोखिम अवधारणा। 4
(ब) पुनर्बीमा (Reinsurance) में 'दोहरी सुरक्षा' (Double Cover) संज्ञा स्पष्ट कीजिए। 4
(क) 'जीवन बीमा' से आपका क्या अभिप्राय है ? 4
(ड) 'सह-बीमा' एवं 'नूतनीकरण रसीद' पर टिप्पणी लिखिए। 4